

रांची के नामकुम में बनता है नकली सीमेंट, इन कंपनियों के नाम पर हो रही थी पैकिंग

Publish Date:Thu, 06 Jan 2022 12:36 PM (IST)Author: Sanjay Kumar



Jharkhand Crime News नामकुम पुलिस (NamkumPolice) ने नामकुम के विभिन्न क्षेत्र में चल रहे नकली सीमेंट (Fake Cement) के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस (Police) ने नामकुम में ऐसी फैक्ट्री (Factory) का पर्दाफाश किया है। इसी के साथ ही चार लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया है।

नामकुम, (संवाद सूत्र)। Jharkhand Crime News : नामकुम पुलिस

(NamkumPolice) ने नामकुम के विभिन्न क्षेत्र में चल रहे नकली सीमेंट (Fake Cement) के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस (Police) ने नामकुम में ऐसी फैक्ट्री (Factory) का पर्दाफाश किया है, जहां नकली सीमेंट तैयार कर इसे ब्रांडेड सीमेंट कंपनियों (Branded Cement Company) की बोरियों में भर कर बाजार में खपाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री से सैकड़ों बोरी नकली सीमेंट बरामद किया है। इसी के साथ ही चार लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया गया है।

नकली सीमेंट के अवैध कारोबार से नुकसान

पुलिस थाना में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। नकली सीमेंट के अवैध कारोबार से नामकुम के सीमेंट डीलर कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। पुलिस को बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी कि नामकुम के चटकपुर के गैस गोदाम के समीप एक घर में एससीसी, लाफार्ज, अबूजा सहित विभिन्न कंपनियों की बोरी में नकली सीमेंट को डालकर पैक किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उक्त स्थान पर पहुंचकर छापेमारी की।

ये लोग गिरफ्तार

पुलिस नकली सीमेंट की करीब 70 बोरी जब्त कर थाने ले गई है। पुलिस ने फैक्ट्री से नामकुम के चटकपुर निवासी मनोज महतो, कांके निवासी बजरंग लोहरा, सूरज लोहरा व सिमडेगा निवासी संजय डुंगडुंग को पकड़ा है।

नकली सीमेंट कारोबारी की की जा रही है तलाश

पुलिस ने उक्त घर को सील कर दिया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील तिवारी ने बताया कि नामकुम के विभिन्न जगहों पर एसआई अनिमेश शांतिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाकर नकली सीमेंट कारोबारी की तलाश की जा रही है।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-jharkhand-crime-news-namkum-fake-cement-factory-busted-scc-cement-lafarge-cement-abuja-cement-packing-here-22357304.html>